

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

132]
No. 132]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 2, 1982/चैत्र 12, 1904
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 2, 1982/CHAITRA 12, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1982

का. आ. 234(अ) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं में का. आ. 114(अ), तारीख 1 मार्च, 1982 सं. का. आ. 132(अ), तारीख 10 मार्च, 1982 और सं. का. आ. 136(अ), तारीख 12 मार्च, 1982 के अनुसरण में गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश के राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य सभा में उन सदस्यों के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल, 1981 को निवृत्त हो गए थे, स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन कराया गया है ;

अतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की विधान सभाओं के निर्वा-

चित सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों के नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किए जाते हैं :—

क्रम सं.

सदस्य का नाम

आन्ध्र प्रदेश

1. श्री पी. बाबुल रेड्डी
2. श्री रायापति सम्भा शिवाराव
3. श्री आदिनारायन रेड्डी
4. श्री बी. रामचन्द्र राव
5. श्री एस. बी. रमेश बाबू
6. श्री के. एल. एन. प्रसाद

बिहार

7. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव
8. श्री महावीर प्रसाद
9. श्री रामा नन्द-यादव
10. श्री सूरज प्रसाद
11. श्रीमती प्रतिभा सिंह
12. श्री भीष्म नारायण सिंह
13. श्री महेन्द्र मोहन मिश्र
14. श्री रफीक आलम

क्रम सं.	सदस्य का नाम	क्रम सं.	सदस्य का नाम
15. श्रीमती जोशी कुमुदबेन मणिशंकर			राजस्थान
16. श्री मकवाना योगेन्द्र कुमार मावजी भाई		45. श्री भुवनेश	
17. श्री रथवाक्रीली रामसिंहभाई पतलियाभाई		46. श्री नथ्या	
18. श्री पटेल विठ्ठलभाई मोतीराम		47. श्री मोहम्मद उस्मान	
	हरियाणा		उत्तर प्रदेश
19. श्री हरि सिंह		48. श्रीमती कृष्णा कौल	
	हिमाचल प्रदेश	49. श्री कृष्ण नन्द जोशी	
20. श्री रोशन लाल		50. श्री घनश्याम सिंह	
	जम्मू-कश्मीर	51. श्री जगदीश प्रसाद गोयल	
21. श्री धर्म चन्द्र		52. श्री बिशम्बर नाथ पाण्डे	
22. श्री ग़ुलाम रसूल मट्टू		53. श्री राम नरेश	
	कर्नाटक	54. श्री शान्ति त्यागी	
23. श्री एफ. एम. खान		55. श्री श्याम लाल यादव	
24. श्री एम. राजगोपाल		56. डा. संकटा प्रसाद	
25. श्री वीरशेट्टी मौगलप्पा कूशनूर		57. श्री सुख देव	
26. श्री एच. हनुमंथप्पा		58. श्री हाशिम रजा आबिदी इलाहाबादी	
	मध्य प्रदेश		पश्चिमी बंगाल
27. श्री लाल		59. श्री कल्याण शंकर राय	
28. श्री श्रीकान्त वर्मा		60. श्री निर्मल चटर्जी	
29. श्री हंसराज भारद्वाज		61. श्री नेपाल देव भट्टाचार्यजी	
30. श्री केशव प्रसाद शुक्ला		62. श्री रामकृष्ण मजूमदार	
31. श्री राधाकिशन मालवीय		63. श्री सुकोमल सेन ।	
32. श्रीमती रत्ना कुमारी			
	सहारणपूर		
33. श्री सिंह, विश्वजीत पृथ्वीजीत			
34. श्रीमती खापडे सरोज पुरुषोत्तम			
35. श्री पाटिल, दिनकरराव गोविन्दराव			
36. श्री जाधव, विठलराव माधवराव			
37. श्री कालमडी, सुरेश शामराव			
38. श्री भण्डारे, मुरलीधर चन्द्रकांत			
	उड़ीसा		
39. श्री गया चन्द भूयान			
40. श्री बनमाली बाबू			
41. श्री सन्तोष साहू			
	पंजाब		
42. श्रीमती अमरजीत कौर			
43. श्री सत पाल			
44. श्री गुरचरण सिंह			

[सं. फा. 13(1)/82-वि. 2]

र. वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY

AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 1982

S.O. 234(E).—Whereas elections have been held in pursuance of notifications No. S.O. 114(E), dated the 1st March, 1982, No. S.O. 132(E), dated the 10th March, 1982 and No. S.O. 136(E), dated the 12th March, 1982, issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of filling the seats of the members of the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assemblies of the States of Gujarat, Jammu and Kashmir, Karnataka, West Bengal, Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh who retired on the 2nd April, 1982, on the expiration of their term of office ;

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the names of the members elected by the elected members of the Legislative Assemblies of the States of Gujarat, Jammu and Kashmir, Karnataka, West Bengal, Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra,

Orissa, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh are hereby notified for general information :—

Sl. No.	Name of the Member
Andhra Pradesh	
1.	Shri P. Babul Reddy
2.	Shri Rayapati Samba Siva Rao
3.	Shri Adinarayana Reddy
4.	Shri B. Ramachandra Rao
5.	Shri S. B. Ramesh Babu
6.	Shri K. L. N. Prasad
Bihar	
7.	Shri Jagdambi Pd. Yadav
8.	Shri Mahabir Prasad
9.	Shri Rama Nand Yadav
10.	Shri Suraj Prasad
11.	Shrimati Pratibha Singh
12.	Shri Bhimsa Narain Singh
13.	Shri Mahendra Mohan Mishra
14.	Shri Rafique Alam
Gujarat	
15.	Shrimati Joshi Kumudben Manishanker
16.	Shri Makwana Yogendrakumar Mavjibhai
17.	Shri Rathvakoli Ramsingbhai Pataliyabhai
18.	Shri Patel Viththalbhai Motiram
Haryana	
19.	Shri Hari Singh
Himachal Pradesh	
20.	Shri Roshan Lal
Jammu and Kashmir	
21.	Shri Dharm Chander
22.	Shri Ghulam Rasool Matto
Karnataka	
23.	Shri F. M. Khan
24.	Shri M. Rajagopal
25.	Shri Veershetty Moglappa Kushnoor
26.	Shri H. Hanumanthappa
Madhya Pradesh	
27.	Shri Lal
28.	Shri Srikant Verma
29.	Shri Hansraj Bhardwaj
30.	Shri Keshavprasad Shukla
31.	Shri Radhakishan Malviya
32.	Smt. Ratna Kumari

Sl. No.	Name of Member
Maharashtra	
33.	Shri Singh, Vishvajit Prithvijit
34.	Shrimati Khaparde, Saroj Purshottam
35.	Shri Patil, Dinkarrao Govindrao
36.	Shri Jadhav, Vithalrao Madhavrao
37.	Shri Kalmadi, Suresh Shamrao
38.	Shri Bhandare, Murlidhar Chandrakant.
Orissa	
39.	Shri Gaya Chand Bhuyan
40.	Shri Banamali Babu
41.	Shri Santosh Sahu
Punjab	
42.	Smt. Amarjit Kaur
43.	Shri Sat Paul
44.	Shri Gurcharan Singh
Rajasthan	
45.	Shri Bhuvanesh
46.	Shri Nattha
47.	Shri Mohammad Usman
Uttar Pradesh	
48.	Shrimati Krishna Kaul
49.	Shri Krishna Nand Joshi
50.	Shri Ghan Shyam Singh
51.	Shri Jagdish Prasad Goyal
52.	Shri Bishambhar Nath Pandey
53.	Shri Ram Naresh
54.	Shri Shanti Tyagi
55.	Shri Shyam Lal Yadav
56.	Dr. Sankata Prasad
57.	Shri Sukh Deo
58.	Shri Hashim Raza Abidi Allahabadi
West Bengal	
59.	Shri Kalyan Sankar Roy
60.	Shri Nirmal Chatterjee
61.	Shri Nepaldeo Bhattacharjee
62.	Shri Ramkrishna Mazumder
63.	Shri Sukomal Sen.

[No. F. 13(1)/82-Leg. II]
R. V. S. PERI SASTRI, Secy.

